

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 337]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2001/आषाढ़ 7, 1923

No. 337]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2001/ASADHA 7, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2001

सं. 32/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 490(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम, 2001 (जिसे इसमें इससे पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी स्वतंत्र टैक्साटाइल प्रसंस्करणकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् “स्वतंत्र टैक्साटाइल प्रसंस्करणकर्ता” कहा गया है) द्वारा अनन्य रूप से तप्त वायु की सहायता से विनिर्मित या उत्पादित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 52.07, 52.08, 52.09, 54.06, 54.07, 55.11, 55.12, 55.13 या 55.14 के अंतर्गत आने वाले प्रसंस्कृत टैक्साटाइल फैब्रिकों या शीर्ष सं० अथवा उपशीर्ष सं० 58.01, 58.02, 5806.10 5806.40, 6001.12, 6001.22, 6001.92, 6002.20, 6002.30, 6002.43 या 6002.93 के अंतर्गत आने वाले सूत अथवा मानव निर्मित फाइबरों के प्रसंस्कृत टैक्साटाइल फैब्रिकों (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त माल” कहा गया है) को विनिर्दिष्ट करती है और उत्पाद शुल्क की दर निम्नानुसार अधिसूचित करती है—

(क) ऐसे प्रसंस्करण कारखाने की दशा में, जिसकी प्रसंस्कृत फैब्रिक का औसत मूल्य 30 रुपए, जिसमें उक्त मूल्य भी सम्मिलित है, प्रतिवर्ग मीटर तक है, प्रति चैम्बर प्रतिमास 2.5 लाख रुपए ; और

(ख) ऐसे प्रसंस्करण कारखाने की दशा में, जिसकी प्रसंस्कृत फैब्रिक का औसत मूल्य 30 रुपए प्रतिवर्ग मीटर से अधिक है, प्रति चैम्बर प्रतिस्टेंटर प्रति मास 3 लाख रुपए ।

2. उत्पाद शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए, इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

- (i) किसी स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ता के ऐसे प्रोसेसिंग कारखाने के मामले में, जो 1 मई, 2001 को विद्यमान था, ऐसे प्रोसेसिंग कारखाने में, तारीख 1 मार्च, 2001 या 1 मई, 2001 को, लगे हुए तप्त वायु स्टेन्टर के चैम्बरों की ऐसी संख्या, जो ज्यादा हो, हिसाब में ली जाएगी ;

- (ii) किसी ऐसे नए प्रोसेसिंग कारखाने के मामले में, जो 1 मई, 2001 के बाद अस्तित्व में आया हो, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 98 यद्धक के तहत किए गए आवेदन की तारीख को या इस अधिसूचना के पैरा 7 के अधीन किए गए आवेदन की तारीख को ऐसे प्रोसेसिंग कारखाने में लगे हुए तप्त वायु स्टैंटर के चैम्बरों की संख्या को हिसाब में लिया जाएगा।

3. स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता के कारखाने के लिए उक्त माल का (प्रतिवर्ग मीटर) औसत मूल्य, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त कारखाने में निकासी किए गए उक्त मालों के कुल मूल्य से उक्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी किए गए उक्त मालों की कुल मात्रा से विभाजित कर निकाला जाएगा ;

परन्तु यह कि जहां उक्त मालों का विनिर्माण या उत्पादन ऐसे कारखाने के किसी नए एकक या किसी बंद एकक द्वारा किया जाता है, जिसके लिए ऊपर यथाविनिर्दिष्ट औसत मूल्य की संगणना नहीं की जा सकती है, वहां ऐसे मालों का औसत मूल्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 98 यद्धक के अधीन या इस अधिसूचना के अधीन आवेदन करते समय स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता द्वारा घोषित किया गया औसत मूल्य होगा, किन्तु उक्त मालों पर संदेय शुल्क की रकम की, वित्तीय वर्ष के अंत में उक्त वित्तीय वर्ष में विनिर्मित या उत्पादित उक्त मालों के वास्तविक औसत मूल्य के आधार पर पुनः गणना की जाएगी।

4. उक्त मालों पर उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क का योग होगा और दोनों पूर्वोक्त अधिनियमों के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 1 : 1 के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा।

5. यदि स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता संस्थापित मशीनरी या उसके किसी भाग में कोई परिवर्तन करने का ऐसा प्रस्ताव करता है जिसका आशय उसके कारखाने में संस्थापित तप्त वायु स्टैंटर में चैम्बरों की संख्या में परिवर्तन करना हो तो वह प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन के एक मास पहले, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त को एक प्रति के साथ लिखित में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को सूचना देगा और ऐसा परिवर्तन करने से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा, तत्पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त वह तारीख अवधारित करेगा, जिससे चैम्बरों की संख्या में परिवर्तन प्रभावी समझा जाएगा :

परन्तु, यदि किसी प्रोसेसिंग कारखाने में लगे हुए तप्त वायु स्टैंटर के चैम्बरों की संख्या या तप्त वायु स्टैंटर की संख्या में कोई कमी किसी वित्तीय वर्ष में, कारखाने में लगे हुए संयंत्र या उसके भाग में परिवर्तन के द्वारा, की जाती है तब ऐसी कमी का कोई हिसाब, इस अधिसूचना के अधीन उक्त वित्तीय वर्ष के लिए देय शुल्क की संगणना में नहीं लिया जाएगा एवं उक्त वित्तीय वर्ष में उत्पाद शुल्क का संदाय इस प्रकार किया जाएगा मानो तप्त वायु स्टैंटर या चैम्बरों की संख्या में कोई कमी हुई ही न हो।

6. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(क) स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता के कारखाने में संस्थापित ऐसा चैम्बर (तप्त वायु स्टैंटर का) जिसकी रेल लम्बाई हर तरफ 3.05 मीटर तक है, एक चैम्बर के रूप में माना जाएगा और ऐसे किसी चैम्बर की ऐसी रेल लम्बाई से अधिक किसी भाग की यथानुपात आधार पर संगणना की जाएगी ;

(ख) फैब्रिकों की ताप सेटिंग या शुष्कन की प्रक्रिया की सहायता के लिए किसी स्टैंटर में संस्थापित या उससे अनुलग्न 3.05 मीटर लम्बाई की कोई फ्लोट शुष्कन मशीन या कोई अन्य उपकरण, गैलरीज के सिवाय, किसी स्टैंटर का एक चैम्बर माना जाएगा और ऐसी लम्बाई के किसी भाग की यथानुपात आधार पर संगणना की जाएगी।

7(1) ऐसा स्वतंत्र टैक्साटाइल प्रसंस्करणकर्ता, जो उक्त माल के विनिर्माण या उत्पादन में अनन्य रूप से लगा है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को इस अधिसूचना में यथाअंतर्विष्ट उत्पाद-शुल्क के संदाय के लिए विशेष प्रक्रिया को लेने के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट प्ररूप में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व आवेदन करेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ऐसा आदेशन किए जाने पर, इस अधिसूचना में यथाअधिकथित ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, अनुज्ञा देगा जिससे कि आवेदन करने की तारीख से और 31 मार्च, 2002 की समाप्ति से प्रारंभ होने वाली अवधि को इसके अंतर्गत लाया जा सके। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा ऐसे आवेदन पर स्वीकृति की अपेक्षा में, स्वतंत्र वस्त्र प्रसंस्करणकर्ता इस भाग के उपबंधों का अन्तिम रूप से उपयोग कर सकेगा। परन्तु यदि आयुक्त द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाए, तब वह इस भाग के उपबंधों का, 1 मई, 2001 से उपयोग करने के लिए अपात्र होगा तथा वह शुल्क के दायित्व, इस भाग के उपबंधों से भिन्न उपबंधों के आधार पर अदा करेगा एवं इस भाग के उपबंधों अथवा अधिसूचनाओं के अधीन सदत्त किया गया शुल्क, ऐसे माल पर संदेय शुल्क की बाबत समायोजित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “स्वतंत्र टैक्साटाइल प्रसंस्करणकर्ता” से ऐसे विनिर्माता अभिप्रेत है जो विद्युत या भाप की सहायता से विरंजन, रंजन या छपाई अथवा इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रिया करता है और जिसके पास उसके कारखाने में ताप सैटिंग या रंगाई, किसी तप्त वायु स्टैंटर में अनन्य रूप से विद्युत या भाप की सहायता से करने के लिए (जिसमें संयंत्र और उपस्कर सम्मिलित हैं) भी सुविधा है और उसका 1 मई, 2001 को या उसके पश्चात् सूत की कताई या फैब्रिकों के व्यूतन या बुनाई में प्राथमिक रूप से या सारवान रूप से लगे किसी कारखाने में कोई स्वामित्व हिस्सा नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—शंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस भाग के उपबंध ऐसे किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता को लागू नहीं होंगे जो अपने कारखाने में प्रतिस्थापित विद्युत या भाप के खुले वायु स्टैंटर की सहायता से ताप सैटिंग या रंगाई का कार्य करता है।

(2) उपपैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 1 मई, 2001 को संचालितमान प्रसंस्करण कारखाने की बाबत 1 मई, 2001 से ही 31 मार्च, 2002 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम ईएक्सए में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों का फायदा लेने के लिए नियम 96यदक के उपनियम (2) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को 20 मई, 2001 को या इससे पूर्व स्वतंत्र टैक्साटाइल प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किया गया आवेदन उपपैरा (1) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा। यदि ऐसा आवेदन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा 1 जुलाई, 2001 से पूर्व की तारीख को अनुदत्त किया गया था तो उसे इस अधिसूचना में यथाअधिकथित सभी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए उपपैरा (1) के अधीन अनुदत्त किया गया समझा जाएगा। अन्यथा, आयुक्त आवेदन को इस प्रकार निपटाएगा मानो वह उपपैरा (1) के अधीन किया गया आवेदन हो।

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है 1 मई, 2001 को विद्यमान प्रोसेसिंग कारखाना, स्वतंत्र टैक्साटाइल प्रसंस्करणकर्ता और उनकी बाबत जिनके द्वारा 20 मई, 2001 को या इससे पूर्व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96यदक के अधीन आवेदन नहीं किया गया था, इस अधिसूचना का फायदा लेने के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 यदक के उपनियम (2) के परन्तुक के अधीन 1 मई, 2001 के पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2001 से पूर्व, जिससे कि 31 मार्च, 2001 तक की अवधि को इसके अंतर्गत लाया जा सके, स्वतंत्र टैक्साटाइल प्रसंस्करणकर्ता द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व, अस्तित्व में आने वाले नए प्रोसेसिंग कारखाने में पहली बार उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व किया गया आवेदन उपपैरा (1) के अधीन किया गया आवेदन भी समझा जाएगा और इस उपपैरा के अधीन निपटाया जाएगा। यदि ऐसा आवेदन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96यदक के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा इसलिए अनुदत्त किया गया था जिससे कि 31 मार्च, 2002 तक की अवधि को इसके अंतर्गत लाया जा सके तो इस अधिसूचना में यथाअधिकथित सभी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसे निपटारे से उपपैरा (1) के अधीन आवेदन का निपटारा किया गया समझा जाएगा।

8 (1) उक्त माल के स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता के कारखाने में संस्थापित संयंत्र और मशीनरी में विनिधान का मूल मूल्य, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऐसा संयंत्र और मशीनरी उपयोग में हैं या नहीं अथवा कार्य करने की दशा में हैं या नहीं, किसी विद्यमान स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता के मामले में 1 मई, 2001 अथवा अन्य स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, जो 1 मई, 2001 के पश्चात् पहली बार उत्पादन प्रारंभ करता है, के मामले में, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 यदक या इस अधिसूचना के पैरा 7 के अधीन दिए गए आवेदन की तारीख को, तीन करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी और स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, अपने कारखाने में 1 मई, 2001 को संस्थापित ऐसे संयंत्र और मशीनरी में विनिधान का मूल मूल्य की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित विहित प्ररूप में घोषणा करेगा और ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा जिसकी ऐसे मूल मूल्य की बाबत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपेक्षा करे। आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऐसा आवेदन स्वीकार करने से पहले ऐसे किसी भी प्रमाण की मांग कर सकता है जो वह उचित समझे।

(2) यदि किसी समय स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता द्वारा कोई अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी संस्थापित की जाती है तो वह, ऐसे संस्थापित, के सात दिन के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को उसकी सूचना देगा और ऐसे अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी में विनिधान का मूल मूल्य उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट तीन करोड़ रुपए की पात्रता की सीमा का अवधारण करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा। जहां यह विनिधान का मूल मूल्य तीन करोड़ रुपए से ज्यादा है, इस अधिसूचना के उपबंध उस महीने की पहली तारीख से लागू नहीं होंगे जिस महीने में ऐसे विनिधान का मूल्य तीन करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है।

(3) स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, अपने कारखाने से किसी गैर स्टेंटरित टैक्सटाइल फैब्रिक को नहीं हटाएगा।

(4) उक्त माल के स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, जिसने इस अधिसूचना के अनुसार उत्पाद शुल्क का संदाय करने के लिए पैरा 7 के अधीन आवेदन किया है, को कारखाने के बंद होने के आधार पर, पैरा 10 के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रकार का उपशमन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(5) इस अधिसूचना के उपबंधों का विकल्प लेने वाला स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के अधीन निवेश या पूंजी माल पर संदत्त शुल्क के किसी मुजरे का लाभ लेने का पात्र नहीं होगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे उक्त माल को लागू नहीं होंगे जो 1 मई, 2001 को या उसके पश्चात् विनिर्मित या उत्पादित किए जाते हैं।

(7) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,-

(क) उक्त माल जो 1 मई, 2001 के पूर्व विनिर्मित या उत्पादित किया जाता है और उस तारीख को या उसके पश्चात् निकासी किया जाता है ;

(ख) कोई संयुक्त मिल, अर्थात् कोई विनिर्माता या प्रसंस्करणकर्ता जो, विद्युत की सहायता से कारखाने के भीतर फाइबर से सूत के कर्तन और फैब्रिकों के व्यूतन या बुनाई या क्रोशिया से बुनाई के साथ-साथ फैब्रिकों के प्रसंस्करण में लगा हुआ है, और जिसमें बहुस्थानिक संयुक्त मिल, अर्थात् कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी सम्मिलित है, जो उसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्वामित्वाधीन एक या अधिक कारखाने में विद्युत की सहायता से फाइबर से सूत के कर्तन और फैब्रिकों के व्यूतन या बुनाई या क्रोशिया से बुनाई के साथ-साथ फैब्रिकों के प्रसंस्करण में लगी हुई है ; या

(ग) स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उत्पादित या विनिर्मित उक्त माल से भिन्न फैब्रिक।

9. (1) उक्त माल को कोई ऐसा स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, जिसका आवेदन पैरा 7 के अधीन मंजूर किया गया है, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित शुल्क की रकम का संदाय करेगा और इस अधिसूचना में यथा अधिकथित शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, ऐसा संदाय, उस अवधि के दौरान, जिसके लिए शुल्क की उक्त रकम का संदाय किया गया है, उसके उक्त माल के विनिर्माण पर उदग्रहणीय शुल्क के लिए उसके दायित्व का पूर्ण उन्मोचन होगा ;

परन्तु यह कि यदि शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन है तो संदेय शुल्क की रकम को, परिवर्तन की तारीख से पुनरीक्षित दरों के आधार पर पुनः संगणित किया जाएगा और उस तारीख से उक्त माल के उत्पादन पर उदग्रहणीय शुल्क के लिए दायित्व तब तक उन्मोचित नहीं होगा जब तक अन्तरीय शुल्क को संदत्त नहीं कर दिया जाता और जहां इस प्रकार पुनः संगणित शुल्क की रकम संदत्त रकम से कम है तो अतिशेष का विनिर्माता को प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय शुल्क की रकम, स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता द्वारा ऐसे चालू खाते में जमा की जाएगी, जो उसके द्वारा उक्त नियमों के अधीन रखा जाना अपेक्षित है ।

(3) उप-पैरा (1) के अधीन किसी कलैण्डर मास के लिए संदेय शुल्क का पचास प्रतिशत उस मास की 20 तारीख तक संदाय किया जाएगा और बची हुई रकम ठीक पश्चात्पूर्वी मास की 5 तारीख तक संदत्त की जाएगी ।

(4) स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, माल के, जिसमें उक्त माल या अन्य माल के विनिर्माण के लिए प्राप्त या उसमें उपभोग की गई सामग्री सम्मिलित है, उत्पादन या विनिर्माण, उसके पास स्टॉक में मौजूद माल और सामग्री और उसके द्वारा उक्त नियम या तद्धीन जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन संदत्त शुल्क से संबंधित अभिलेख रखेगा और विवरणी फाइल करेगा :

परन्तु यह कि उक्त माल का स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, उक्त नियमों या तद्धीन जारी की गई किसी अधिसूचना के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित मासिक विवरणी में यह और घोषणा करेगा कि उस मास में, जिससे उक्त विवरणी संबंधित है, उसके कारखाने में संस्थापित संयंत्र और मशीनरी में विनिधान का कुल मूल्य तीन करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ।

(5) यदि कोई स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता उप-पैरा (1) के अधीन शुल्क की रकम या उसके किसी भाग का, उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट तारीख तक संदाय करने में असमर्थ रहता है तो वह निम्नलिखित के लिए दायी होगा,—

(i) बकाया राशि पर, बकाया रहने की अवधि के लिए चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित ब्याज के साथ शुल्क की बकाया राशि के संदाय ; और

(ii) उस पर किसी मास के लिए ऐसी बकाया शुल्क की रकम के, जो पश्चात्पूर्वी मास की 5 तारीख तक संदेय है, समतुल्य या पांच हजार रुपए, इनमें से जो भी अधिक है, की शास्ति ।

(6) यदि कोई स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, उप-पैरा (4) में अंतर्विष्ट किसी भी अपेक्षा का अनुपालन किए बिना उक्त माल को हटाता है तो उक्त माल अधिहरण के लिए दायी होगा और स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो दस हजार रुपए से अनधिक होगी ।

10. (1) जब कोई स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता ऐसी निरन्तर अवधि के दौरान जो पन्द्रह दिन से अन्यून हो, उक्त माल का निर्माण या विनिर्माण नहीं करता और उसके द्वारा अधिसूचना के अधीन उसके द्वारा संदेय राशि के उपशमन का दावा करने की वांछ करता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश द्वारा, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए, ऐसी रकम का, जो ऐसे आदेश में, विनिर्दिष्ट की जाए, उपशमन अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उपशमन केवल कारखाने के पूर्ण बन्दी पर ही लागू होगा न कि किसी एक या अधिक तप्त वायु स्टैंटर के बन्द रहने पर ;

(ख) बन्दी की अवधि के दौरान उक्त माल की बाबत कोई भी विनिर्माण संबंधी क्रियाकलाप, विरंजाई, रंगाई या छपाई, को मिलाकर नहीं किया जाएगा और स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उक्त माल को हटाया नहीं जाएगा ;

(ग) स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता कारखाना बन्दी की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त को बन्दी के बारे में लिखित रूप में जानकारी देगा, जिसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को दी जाएगी ;

(घ) एक या अनेक स्टैंटरों को ऐसी रीति में सील किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त विहित करे ;

(ङ) स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता उत्पादन प्रारंभ करने की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त को उत्पादन प्रारंभ करने के बारे में लिखित रूप में जानकारी देगा, जिसकी एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को दी जाएगी, और वह उत्पादन को पुनः प्रारंभ करने से पूर्व सील को ऐसी रीति में खोलेगा, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा विहित की जाए ;

(च) स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता शर्त (ङ) के अधीन जानकारी भेजते समय यह घोषणा करेगा कि उसका कारखाना इस समय और तारीख से आरंभ होकर इस समय और तारीख तक की अवधि के लिए निरंतर बन्द बना रहा, ऐसे समय और तारीखें घोषणा में विनिर्दिष्ट की जानी हैं ;

(छ) जब स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता का उपशमन के लिए दावा एक मास के अन्धून अवधि के लिए है तब वह मास की संपूर्ण अवधि के लिए यथा लागू शुल्क का संदाय करने के लिए अपेक्षित होगा और तत्पश्चात् ऐसे शुल्क के संदाय के पश्चात् ऐसा दावा कर सकेगा ;

(ज) जहां स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता का उपशमन के लिए दावा एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिए है वहां वह अग्रिम में उस अवधि के लिए, शुल्क का संदाय करने के लिए अपेक्षित नहीं होगा ।

(झ) स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता का उपशमन करने के लिए दावा, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा, इस संबंध में किए गए लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञात कर दिया गया है तो स्वतंत्र टैक्सटाइल प्रसंस्करणकर्ता, उत्पादन पुनः प्रारंभ करने के लिए शर्त (छ) के अधीन सील किए गए स्टैंटर या स्टैंटरों को पुनः खोलने से पूर्व शुल्क की रकम का और ब्याज का, यदि कोई लागू हो संदाय करेगा ;

परन्तु यह कि जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त का यह समाधान हो गया है कि शर्त (ग) के अधीन जानकारी देने में हुआ विलम्ब अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कारित हुआ है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित कर ऐसे विलम्ब को माफ कर सकेंगे ।

11. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2001 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 357/8/2001-टीआरयू]

टी. आर. रुम्तगी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

मूल प्रति
दूसरी प्रति
तीसरी प्रति

प्ररूप ए एस पी

प्रसंस्कृत वस्त्र तांतव से संबंधित विशेष प्रक्रिया का उपभोग करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

कारखाने/कारखानों का नाम.....पता..... मैं/हम.....जो प्रसंस्कृत वस्त्र तांतव के विनिर्माता हैं,.....में निवास करता हूँ/करते हैं और केन्द्रीय सीमा-शुल्क अनुज्ञप्ति सं. तारीख के धारक हैं, मेरे/हमारे उपरोक्त कारखाने/ कारखानों में विद्युत या वाष्प की सहायता से प्रसंस्कृत वस्त्र तांतव के उत्पादन या विनिर्माण के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2001 के नियम 15 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में अन्तर्विष्ट उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए विशेष प्रक्रिया का कलेण्डर मास तारीख..... 200से आरंभ होने और तारीख 200..... को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, उपभोग करने के लिए मैं/हम आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

2. मैं/हम निम्न रूप में, मेरे/हमारे उपरोक्त कारखाने में उत्पादित या विनिर्मित प्रसंस्कृत वस्त्र तांतव की विशिष्टियां घोषित करता हूँ/करते हैं :-

क्रम संख्यांक	प्रसंस्कृत वस्त्र तांतव का वर्णन	प्रसंस्कृत वस्त्र तांतव का वर्गीकरण
1	2	3

3. मैं/हम निम्न रूप में, मेरे/हमारे उपरोक्त कारखाने में संस्थापित प्रत्येक संयंत्र और मशीन की विशिष्टियां घोषित करता हूँ/करते हैं :-

संयंत्र और मशीनरी के प्रत्येक प्रकार के लिए पृथक्-पृथक् संख्या	संयंत्र और मशीनरी के विनिर्माता का नाम	संयंत्र और मशीनरी का ब्रांड नाम और पहचान सूचक विशिष्टियां	संयंत्र और मशीनरी का क्रम संख्यांक/ पहचान संख्या
1	2	3	4

क्रय करने की तारीख और वर्ष	संस्थापना की तारीख और वर्ष	प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी में निवेश की मूल लागत 1.3.2001 और 1.5.2001 को विद्यमान कारखाने के मामले में/नये कारखाने के लिए आवेदन की तारीख पर (जो लागू न हों काट दें)	संयंत्र और मशीनरी की कुल लागत 1.3.2001 और 1.5.2001 को विद्यमान कारखाने के मामले में नये कारखाने के लिए आवेदन की तारीख पर (जो लागू न हों काट दें)
5	6	7	8

4. मैं/हम निम्न रूप में, मेरे/हमारे उपरोक्त कारखाने में संस्थापित प्रत्येक तप्त वायु स्टैंटर की विशिष्टियां घोषित करता हूँ/करते हैं :-

संस्थापित तप्त वायु स्टैंटर की संख्या, 1.3.2001 और 1.5.2001 को विद्यमान कारखाने के मामले में/नये कारखाने के लिए आवेदन की तारीख पर (जो लागू न हों काट दें)	प्रत्येक तप्त वायु स्टैंटर में चैम्बर की (सेंटीमीटर में विनिर्मित लंबाई और चौड़ाई दोनों) संख्या और आकार	तप्त वायु स्टैंटर के ब्रांड का नाम और अन्य पहचान सूचक विशिष्टियां	तप्त वायु स्टैंटर के क्रम तारीख और सं./पहचान सं. वर्ष	तप्त वायु स्टैंटर के क्रम तारीख और सं./पहचान सं. वर्ष
1	2	3	4	5
संस्थापन की तारीख और वर्ष	प्रत्येक तप्त वायु स्टैंटर में चैम्बर की (सेंटीमीटर में विनिर्मित लंबाई और चौड़ाई दोनों) संख्या और आकार	पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पादित/विनिर्मित प्रसंस्कृत वस्त्र तांतवों का कुल मूल्य और मात्रा	पिछले वित्तीय वर्ष में निसृत प्रसंस्कृत वस्त्र तांतवों का कुल मूल्य और मात्रा	पिछले वित्तीय वर्ष में निसृत प्रसंस्कृत वस्त्र तांतवों का औसत मूल्य
6	7	8	9	10

5. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां हर प्रकार से सत्य और सही हैं । कोई विशिष्टि असत्य/गलत पाए जाने की दशा में, मैं/हम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या नियमों के उपबंधों या उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार, मेरे/हमारे द्वारा विनिर्मित प्रसंस्कृत वस्त्र तांतवों पर उत्पाद-शुल्क की कोई अतिरिक्त रकम का संदाय करने का वचन बंध करता हूँ/करते हैं ।

6. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त कारखाने में किए गए निवेश की मूल लागत रूपए है, जिसकी पुष्टि के लिए निम्नलिखित कागज-पत्र और चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखापाल का प्रमाणपत्र संलग्न है ।

7. मैं/हम उक्त नियम 15 के निबंधनों, शर्तों और सीमाओं या उसके अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना का उक्त समग्र अवधि पर्यन्त पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं ।

स्थान : विनिर्माता(ओं) या उसके/उनके
तारीख : प्राधिकृत अभिकर्ता(ओं)
के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

स्थान : केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के.....
तारीख : रेंज.....
मंडल.....

वित्तीय वर्ष.....के लिए अनुज्ञा मंजूर की गई

.....से आरंभ होकर
.....को समाप्त होने वाली अवधि ।
.....केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त”

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2001

No. 32/2001-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 490(E).— In exercise of the powers conferred by rule 15 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001, (hereinafter referred to as “the said Rules”) the Central Government, hereby, specifies the processed textile fabrics falling under heading Nos. 52.07, 52.08, 52.09, 54.06, 54.07, 55.11, 55.12, 55.13 or 55.14, or processed textile fabrics of cotton or man-made fibres, falling under heading Nos. or sub-heading Nos. 58.01, 58.02, 5806.10, 5806.40, 6001.12, 6001.22, 6001.92, 6002.20, 6002.30, 6002.43, or 6002.93 (hereinafter in this section referred to as the “said goods”) of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), manufactured or produced by an independent textile processor exclusively with the aid of a hot-air stenter (hereinafter referred to as “independent textile processor”), and notifies the rate of excise duty as-

(a) in the case of a processing factory whose average value of processed fabric is upto and including Rs. 30 per sq. mtr., Rs. 2.5 lakhs per chamber per stentor per month; and

(b) in the case of a processing factory whose average value of processed fabric exceeds Rs. 30 per sq. mtr., Rs. 3 lakhs per chamber per stentor per month,

installed in the processing factory, irrespective of whether such stentor or chamber is in use or not, or is in working condition or not.

2. For the purpose of payment of duty of excise,-

- (i) in the case of a processing factory, existing as on 1st May, 2001, of an independent textile processor, the number of chambers of the hot air stentor installed in such processing factory as on 1st March, 2001 or 1st May, 2001, whichever is higher, shall be taken into account;
- (ii) in the case of new processing factory coming into existence after 1st May, 2001, the number of chambers of the hot air stentor installed in such processing factory as on the date the application was made under rule 96ZNA of Central Excise Rules, 1944, and if not, then as on the date the application under paragraph 7 of this notification has been made, as the case may be, shall be taken into account,

subject to the other provisions contained hereinafter.

3. The average value of the said goods (per square meter) for the factory of the independent textile processor shall be arrived at by dividing the total value of the said goods cleared from the

said factory in the immediately preceding financial year by the total quantity of the said goods cleared during that preceding financial year:

Provided that where the said goods are manufactured or produced by a new unit or a closed unit of such factory for which the average value as specified above cannot be calculated, the average value of such goods shall be the average value declared by the independent textile processor at the time of making the application under rule 96ZNA of the Central Excise Rules, 1944 or under this notification; but the amount of duty payable on the said goods shall be re-worked at the end of the financial year on the basis of actual average value of the said goods manufactured or produced in that financial year.

4. The duty levied and collected on the said goods shall be the aggregate of the duty leviable under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) and shall be apportioned in the ratio of 1:1 between the duty leviable under both the aforesaid Acts.

5. In case the independent textile processor proposes to make any change in the installed machinery or any part thereof which tends to change the number of chambers in the hot-air stenters installed in his factory, he shall intimate, about the proposed change, to the Commissioner of Central Excise in writing, with a copy to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, one month in advance of such proposed change, and shall obtain the written approval of the Commissioner of Central Excise before making such change, whereafter the Commissioner of Central Excise shall determine the date from which the change in the number of chambers shall be deemed to be effective:

Provided that where any change in the installed machinery or any part thereof during a financial year results in the reduction in the number of chambers in a hot-air stenter or in the number of hot-air stenters, installed in the processing factory, no account of such reduction shall be taken into account for computing the duty payable under this notification during that financial year and the duty of excise shall be payable during that financial year as if no such reduction in the number of chambers or hot air stenters had taken place.

6. For the purposes of this notification,-

(a) a chamber (of a hot-air stenter), having a rail length of upto 3.05 meter on each side, installed in the factory of the independent textile processor shall be construed as one chamber and any fraction exceeding such rail length of any such chamber shall be computed on a *pro rata* basis;

(b) a float drying machine or any other equipment, except the galleries, of a length 3.05 meters installed in or attached to a stenter for aiding the process of heat-setting or drying of the fabrics shall be deemed to be one chamber of a stenter and any fraction of such length shall be computed on a *pro rata* basis.

7. (1) The independent textile processor, who is engaged exclusively in the manufacture or production of the said goods, shall make an application prior to the commencement of commercial production, in the form specified in the APPENDIX to this notification, to the Commissioner of Central Excise for the purpose of availing of the special procedure for payment of excise duty as contained in this notification. The Commissioner of Central Excise, on such application being made, shall grant permission, subject to such conditions and limitations as laid

down in this notification, so as to cover the period commencing from the date of making the application and ending on the 31st March, 2002. Pending grant of such permission by the Commissioner of Central Excise, the independent textile processor may avail the provisions of this notification on a provisional basis. But if such application is rejected by the Commissioner of Central Excise, then the independent textile processor shall not be eligible to avail of the provisions of this notification from the date of making the application and shall discharge the duty liability as per the provisions contained elsewhere than in this notification and the duty, if any, paid under the provisions of this notification, shall be adjusted against the duty payable on such goods.

Explanation I.-For the purposes of this notification, " independent textile processor" means a manufacturer who undertakes bleaching, dyeing or printing or any one or more of these processes with the aid of power or steam and who also has the facility in his factory (including plant and equipment) for carrying out heat setting or drying, with the aid of power or steam exclusively in a hot air stenter and who has no proprietary interest in any factory primarily and substantially engaged in the spinning of yarn or weaving or knitting of fabrics, on or after the 1st day of May, 2001.

Explanation II.-For the removal of doubt, it is hereby declared that the provisions of this notification shall not apply to an independent processor who carries out heat setting or drying with the aid of an open-air stenter installed in his factory.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), in respect of a processing factory existing as on 1st May, 2001, the application made by an independent textile processor, on or before the 20th May, 2001, to the Commissioner of Central Excise under sub-rule (2) of rule 96ZNA for availing the special provisions contained in section E-XA of the Central Excise Rules, 1944, for the period on and from 1st May, 2001 to 31st March, 2002, shall be deemed to be an application made under sub-paragraph (1). If such application had been granted by the Commissioner of Central Excise on a date prior to 1st day of July, 2001, the same shall be deemed to have been granted under sub-paragraph (1), subject to all the conditions and limitations as laid down in this notification. Otherwise, the Commissioner shall dispose of the application as if it is an application made under sub-paragraph (1).

Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby declared that a processing factory, of an independent textile processor, existing on 1st May, 2001 and in respect of which no application was made under rule 96ZNA of the Central Excise Rules, 1944, on or before 20th May, 2001, shall not be eligible to avail of the benefit of this notification.

Provided further that an application made prior to the commencement of commercial production by an independent textile processor, commencing production for the first time in a new processing factory coming into existence after the 1st May, 2001 but prior to 1st July, 2001, under the proviso to sub-rule (2) of rule 96ZNA of the Central Excise Rules, 1944, so as to cover the period upto the 31st March, 2002, shall also be deemed to be an application under sub-paragraph (1) and shall be disposed of under that sub-paragraph. If such application had been granted by the Commissioner of Central Excise under rule 96ZNA of the Central Excise Rules, 1944, so as to cover the period upto 31st March, 2002, such disposal shall be deemed to be the disposal of the application under sub-paragraph (1), subject to all the conditions and limitations as laid down in this notification.

8. (1) The original value of the investment in the plant and machinery installed in the factory of the independent textile processor of the said goods, as on the 1st March, 2001 or on

the 1st of May, 2001, whichever is higher, for a factory existing as on 1st May, 2001, of the independent textile processor or on the date of making the application under rule 96 ZNA of the Central Excise Rules, 1944 or paragraph 7 of this notification, as the case may be, in the case of an independent textile processor commencing production for the first time in a new factory coming into existence after the 1st of May, 2001, shall not exceed three crore rupees, irrespective of whether such plant and machinery is in use or not, or in working condition or not, and the independent textile processor shall declare the original value of investment in such plant and machinery installed in his factory, on the dates mentioned above, in the prescribed format duly certified by a Chartered Accountant or Cost Accountant. The Commissioner of Central Excise may require any such documentary evidence as he considers appropriate in respect of such original value before granting the application.

(2) If any additional plant and machinery is installed by the independent textile processor at any point of time, he shall intimate the same to the Commissioner of Central Excise within seven days of such installation and the original value of investment in plant and machinery together with the original value of investment in such additional plant and machinery shall not exceed three crore rupees. Where such original value of investment exceeds the limit of three crore rupees, the provisions of this notification shall not apply from the first day of the month in which such investment exceeded the said limit of three crore rupees.

(3) The independent textile processor shall not remove any unstentored textile fabrics from his factory.

(4) An independent textile processor of the said goods who has made the application under paragraph 7 to pay the duty of excise in accordance with this notification shall not be allowed any abatement on account of closure of factory, except as provided under paragraph 10.

(5) The independent textile processor opting for the provisions of this notification shall not be eligible to avail of any credit of duty paid on inputs or capital goods under the CENVAT Credit Rules, 2001.

(6) The provisions of this notification shall apply to the said goods which are manufactured or produced on or after the 1st day of May, 2001.

(7) Nothing contained in this notification shall apply to-

- (a) the said goods which are manufactured or produced prior to the 1st day of May, 2001 and cleared on or after that date;
- (b) a composite mill, that is, a manufacturer or processor, who is engaged in the processing of fabrics with the aid of power along with the spinning of yarn from fibres and weaving or knitting or crocheting of fabrics within the factory and includes a multi-locational composite mill, that is, a public limited company which is engaged in the processing of fabrics with the aid of power along with the spinning of yarn from fibres and weaving or knitting or crocheting of fabrics in one or more factories owned by the same public limited company; or
- (c) fabrics other than the said goods produced or manufactured by the independent textile processor.

9. (1) An independent textile processor of the said goods whose application has been granted under paragraph 7 shall pay an amount of duty calculated at the rate specified in this notification and subject to the conditions and limitations as laid down in this notification, such payment shall be a full discharge of his liability for duty leviable on his production of the said goods during the period for which the said amount of duty has been paid:

Provided that if there is any alteration in the rates of duty, the amount of duty payable shall be recalculated on the basis of the revised rates, from the date of alteration and liability for duty leviable on the production of the said goods from that date shall not be discharged unless the differential duty is paid, and where the amount of duty so recalculated, is less than the amount paid, the balance shall be refunded to the manufacturer:

(2) The amount of duty payable under sub-paragraph (1) shall be debited by the independent textile processor in the account current required to be maintained by him under the said Rules.

(3) Fifty per cent. of the duty payable for a calendar month under sub-paragraph (1) shall be paid by the 20th of that month and the remaining amount shall be paid by the 5th of the immediately succeeding month.

(4) The independent textile processor shall maintain records, and file returns, pertaining to production or manufacture, clearance, storage, delivery or disposal of goods, including the materials received for or consumed in the manufacture of the said goods or other goods, the goods and materials in stock with him and the duty paid by him, as prescribed under the said Rules or any notification issued thereunder:

Provided that the independent textile processor of the said goods shall further declare in the monthly return required to be filed under the said Rules or notification issued thereunder that the original value of investment in the plant and machinery installed in his factory for the month to which the said return pertains has not exceeded three crore rupees.

(5) If an independent textile processor fails to pay the amount of duty under sub-paragraph (1) or any part thereof by the date specified in sub-paragraph (3), he shall be liable to,-

- (i) pay the outstanding amount of duty along with interest at the rate of twenty-four per cent. per annum calculated for the outstanding period on the outstanding amount; and
- (ii) a penalty equal to the amount of duty outstanding from him for a month payable by the 5th of the succeeding month or rupees five thousand, whichever is greater.

(6) If an independent textile processor removes the said goods without complying with any of the requirements contained in sub-paragraph (4), then, the said goods shall be liable to confiscation and the independent textile processor shall be liable to a penalty not exceeding ten thousand rupees.

10. (1) Where an independent textile processor does not produce or manufacture the said goods during any continuous period of not less than fifteen days, he may claim abatement of the duty payable by him under this notification, and such abatement shall be allowed by an order passed by the Joint Commissioner of Central Excise or the Additional Commissioner of Central Excise, as the case may be, of such amount as may be specified in such order, subject to fulfilment of the following conditions, namely:-

- (a) the abatement shall be applicable only on complete closure of the factory and not on closure of any one or more hot-air stenters;
- (b) during the period of closure no manufacturing activity, whatsoever, including bleaching, dyeing or printing, in respect of the said goods shall be undertaken and no removal of the said goods shall be effected by the independent textile processor;
- (c) the independent textile processor shall inform, in writing, about the closure of the factory to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, with a copy to the Superintendent of Central Excise, at least three days prior to the date of closure;
- (d) the stenter or stenters shall be sealed in such manner as may be prescribed by the Commissioner of Central Excise;
- (e) the independent textile processor, when he starts production again, shall inform in writing about the date of starting of production to the Deputy Commissioner of Central Excise or the Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, with a copy to the Superintendent of Central Excise, at least three days prior to the date of starting production, and get the seal opened in such manner as may be specified by the Commissioner of Central Excise before recommencing production;
- (f) the independent textile processor shall, while sending information under condition (e), declare that his factory remained closed for a continuous period starting from the hour and date to the hour and date, such hours and dates to be specified in the declaration;
- (g) when the claim for abatement by the independent textile processor is for a period of less than one month, he shall be required to pay the duty, as applicable, for the entire period of the month and may subsequently seek such claim after payment of such duty;
- (h) where the claim for abatement by the independent textile processor is for a period of one month or more, he shall not be required to pay the duty for that period in advance;
- (i) if the claim for abatement by the independent textile processor has been disallowed by the Joint Commissioner of Central Excise or the Additional Commissioner of Central Excise, as the case may be, by a written order made in this regard, the independent textile processor shall pay the amount of duty, and interest if any applicable, prior to getting the stenter or stenters sealed under condition (d) reopened for resuming production;

Provided that the Joint Commissioner of Central Excise or the Additional Commissioner of Central Excise, as the case may be, where he is satisfied that the delay in giving information under condition (c) was caused due to unavoidable circumstances, may, for reasons to be recorded in writing, condone such delay.

11. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2001.

[F. No. 357/8/2001-TRU]

T. R. RUSTAGI, Jt. Secy.

APPENDIX

Original
Duplicate
Triplicate

FORM A.S.P.

Application for permission to avail of the special procedure relating to processed textile fabrics

Name of factory/factories.....Address.....

I/We.....manufacture(s) of processed textile fabrics residing at.....and holder (s) of Central Excise Licence No.dated.....hereby apply to avail myself/ourselves, during the period beginning with.....200.....and ending with.....200....of the special procedure for payment of excise duty contained in the notification issued under rule 15 of the Central Excise Rules, 2001, in respect of the production or manufacture of processed textile fabrics with the aid of power or steam at my/our above-mentioned factory/factories.

2. I/We declare below the particulars of processed textile fabrics produced or manufactured in my/our above-mentioned factory:-

S. No.	Description of processed textile fabrics	Classification of processed textile fabrics
(1)	(2)	(3)

3. I/We declare below the particulars of each of the plant and machinery installed in my/our above-mentioned factory:-

Number of plant and machinery separately for each type	Name of manufacturer of plant and machinery	Brand name and other identifying particulars of plant and machinery	Serial Number/ Identification Number of the plant and machinery	Date and year of purchase	Date and year of installation	Original value of investment in each of the plant and machinery, as on 1-3-2001 and 1-5-2001 in case of existing factory / on the date of making this application in case of new factory (Delete whichever is not applicable)	Total value of investment in the plant and machinery, as on 1-3-2001 and 1-5-2001 in case of existing factory / on the date of making this application in case of new factory (Delete whichever is not applicable)
1	2	3	4	5	6	7	8

4. I/We declare below the particulars of each hot-air stenter installed in my/our above-mentioned factory:-

Number of hot-air stenters installed as on 1-3-2001 and 1-5-2001 in case of existing factory / on the date of making this application in case of new factory (Delete whichever is not applicable)	Name of manufacturer of each of the hot-air stenter	Brand name and other identifying particulars of the hot-air stenters	Serial Number/ Identification Number of the hot-air stenters	Date and year of purchase	Date and year of installation	Number and size (both length and width in centimeters) of chambers in each of the hot-air stenters, as on 1-3-2001 and 1-5-2001 in case of existing factory / on the date of making this application in case of new factory (Delete whichever is not applicable)	Total value and quantity of processed textile fabrics produced/manufactured in the preceding financial year	Total value and quantity of processed textile fabrics cleared in the preceding financial year	Average value of processed textile fabrics cleared in the preceding financial year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

204161/2001-3

5. I/We hereby declare that the particulars furnished above are true and correct in all respects. In case any of the particulars are found to be untrue/incorrect, I/We undertake to pay any additional amount of excise duty on the processed textile fabrics manufactured by me/us as per the provisions of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) or the rules or notifications issued thereunder.

6. I/We further declare that the original value of investment made in the above-mentioned factory is Rs..... in support of which the following documents and the Certificate of the Chartered Accountant/Cost Accountant is enclosed herewith.

7. I/We hereby agree to abide by the terms, conditions and limitations of the said Rule 15 or any notification issued thereunder throughout the said period.

Signature of manufacturer(s) or his/their
authorised agent(s).

Place:

Date:

COUNTERSIGNED

.....of Central Excise
Range.....
Circle.....

Place:

Date:

Permission granted for the financial year

Place:

Date:

the period
beginning with.....
and ending with.....
Commissioner of Central Excise....

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2001

सं. 33/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. नि. 491(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम, 2001 की नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद शुल्क माल यथा, सूती कपड़े, मैन मेड कपड़े, सिल्क कपड़े या ऊनी कपड़े पर पॉस में, स्ट्रीप में, माटिफ में किए गए इम्ब्राइडरी के संबंध में विनिर्दिष्टी को, मशीन के प्रति मीटर लम्बाई, प्रति शीफ्ट के आधार पर उत्पाद शुल्क अदा करने का विकल्प देती है तथा 45 रुपये मशीन के प्रति मीटर लम्बाई, प्रति शीफ्ट, दर से उत्पाद शुल्क निर्धारित करती है

परन्तु कच्चे माल, पुर्जे, अवयव या मशीन या अंतिम उत्पाद जिनका उपयोग इम्ब्राइडरी के विनिर्माण में किया जाय, पर अदा की गई शुल्क का कोई प्रत्यय, सेनबेट प्रत्यय नियम, 2001 के तहत नहीं लिया जायेगा:

परन्तु और की नीचे दिये गये प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

स्पष्टीकरण. इस अधिसूचना में,

(क) किसी मशीन के संबंध में, मीटरी लम्बाई से, उक्त मशीन के किसी एक रोलर की पहली सूई तथा अंतिम सूई के बीच की दूरी ज्ञात है

(ख) शीफ्ट का अर्थ एक दिन में आराम के अंतराल के अलावा आठ घंटे की अवधि है यदि एक ही प्रकार का मजदूर एक ही प्रकार का काम करे।

2. विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए आवेदन— (1) जहां कोई विनिर्माता, सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता, जो लागू हो, का इस निमित्त अधिसूचना के परिशिष्ट I में दिये प्ररूप में आवेदन करता है वहां ऐसा आवेदन सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता, जो लागू हो, आवेदन, आवेदित अवधि के लिए, मंजूर कर सकता है।

(2) ऐसा आवेदन इस प्रकार किया जाएगा जिससे उसके अंतर्गत कम से कम लगातार छह कंलेडर मास की अवधि आ जाए, किंतु सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता लिखित कारणों के साथ, उससे कम अवधि की अनुज्ञा दे सकता है।

(3) यदि ऐसी अवधि के दौरान किसी समय विनिर्माता इस अधिसूचना में दी प्रक्रिया का लाभ उठाने में असफल रहता है तो, जब तक सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता द्वारा अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, ऐसी असफलता की तारीख से छः मास की अवधि के लिए ऐसे उपबन्धों का लाभ उठाने से निवारित कर दिया जाएगा।

(4) यदि विनिर्माता उस अवधि के अवसान पर, जिसके लिए उसका आवेदन मंजूर किया गया था, इस अनुभाग में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है तो वह ऐसे अवसान के पूर्व सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता को उप पैराग्राफ (1) के अधीन आवेदन करेगा और ऐसा करने में उसके असफल रहने पर, जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, उसे ऐसे अवसान की तारीख से छः मास की अवधि के लिए ऐसे उपबंधों का लाभ उठाने से निवारित कर दिया जाएगा।

(5) ऊपर लिखे किसी बातों के बावजूद, इस अधिसूचना के प्रारंभ से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 96यज के उपनियम (1) के अंतर्गत दिए गए आवेदन को उप पैराग्राफ (1) के तहत किया गया आवेदन माना जायेगा तथा उप पैराग्राफ (1) के तहत मंजूर किया गया माना जायेगा एवं जहां ऐसा आवेदन मंजूर न किया गया हो, समाहर्ता उसे उप पैराग्राफ (1) के तहत किये गए आवेदन के रूप में निवारित करेगा।

3. एक निश्चित धनराशि के संदाय पर शुल्क के दायित्व से उन्मुक्ति-- (1) यदि कोई विनिर्माता, जिसका आवेदन पैराग्राफ 2 के अधीन मंजूर कर लिया गया है, ऐसे शुल्क की दर के अनुसार संगणित धनराशि का संदाय इसमें इसके पश्चात् अधिकथित शर्तों में और शर्तों तथा परिसीमाओं के अधीन रहते हुए करता है तो ऐसी संदाय उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए उक्त धनराशि का संदाय किया गया है, उसके द्वारा ऐसी इम्ब्राइडरी के उत्पादन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के लिए उसके दायित्व का पूर्ण उन्मोचन होगा:

परंतु यदि शुल्क की दर में कोई फेरफार हो जाता है तो संदेय धनराशि की परिवर्तन की तारीख से पुनरीक्षित दर के आधार पर पुनः संगणना की जाएगी और उस तारीख से इम्ब्राइडरी के उत्पादन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के लिए दायित्व का उन्मोचन तब तक नहीं होगा जब तक कि शुल्क के अंतर का संदाय नहीं कर दिया जाता है। किंतु यदि इस प्रकार पुनः संगणित शुल्क की रकम संदेय धनराशि से कम है तो अतिशेष का विनिर्माता को प्रति रु० कद दिया जाएगा।

परंतु यह भी कि जहां कोई विनिर्माता इस अनुभाग में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों का लाभ उठाने के लिए पैराग्राफ 2 के अधीन पहली बार आवेदन करता है तो उस मास के लिए शुल्क का दायित्व/जिसमें आवेदन मंजूर किया जाता है, उस मास में कुल दिनों की संख्या और ऐसी मंजूरी की तारीख से उस मास में शेष दिनों की संख्या के आधार पर अनुपाततः संगणित किया जाएगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन संदेय धनराशि की संगणना हरेक मशीन के मीटरी लम्बाई के आधार पर ऐसी दर लागू करके की जाएगी।

(3) ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसी धनराशि ऐसे आवेदन के साथ एकाउंट करेंट के माध्यम से, शीफ्ट के शुरूवात से पहले निविदत्त की जाएगी।

4 विनिर्माता की घोषणा और लेखे,-- (1) ऐसे विनिर्माता, यथास्थिति, समाहर्ता के पास एकाउंट करेंट बनाए रखेगा जिससे पैरा 3 के तहत रकम की अदायगी हो सके यह एकाउंट करेंट तीन प्रतियों में होगा तथा विनिर्दिष्टी को इस एकाउंट करेंट में यथोचित नगद राशि जमा करती रहनी पड़ेगी जिससे की उसमें शुल्क की अदायगी से संबंध समुचित शेष रकम जमा रहे।

(2) ऐसी विनिर्माता का,

(क) परिशिष्ट II में दिए गए प्रारूप में दैनिक स्टाक एकाउंट रखना पड़ेगा

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को लिखित रूप में मशीनों की संख्या, मीटरी लंबाई तथा गति में परिवर्तन के बार में सूचित करना पड़ेगा,

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम, 2001 के नियम 12 के तहत समुचित फार्म में दिए जाने वाले मासिक रिटर्न के साथ दैनिक स्टॉक एकाउंट की दो कार्बन प्रतियां, हस्ताक्षरित लगानी पड़ेंगी।

5 कुछ उपबन्धों से छूट, आदि—(1) उस अवधि के दौरान, जिसकी बाबत किसी विनिर्माता को इस अनुभाग के उपबन्धों का लाभ उठाने की अनुज्ञा दी गई है, उसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम, 2001 के नियम 8 के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट होगी।

(2) ऐसे विशेष निबंधनों, शर्तों और परिसीमाओं के अनुसार के सिवाए, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इसके पश्चात अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसी अवधि के दौरान उत्पादित स्टॉक में से भारत के बाहर निर्यात की गई किसी इम्ब्राइडरी की बाबत नियम 18 के अधीन उत्पादशुल्क के रिबेट का संदाय नहीं किया जाएगा।

6 विंशेष प्रक्रिया के लिए आवेदन करने में असफलता को माफ करने की शक्ति—इस अनुभाग में किसी बात के होते हुए भी, कलक्टर अपने विवेक से और लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों पर जो वह अधिकथित करे, इस अनुभाग में अंतर्विष्ट उपबन्धों को ऐसे विनिर्माता पर लागू कर सकता है जो विनिर्दिष्ट समय परिसीमा के भीतर इस अनुभाग में अधिकथित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने में या किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है।

7 गलत घोषणा के लिए शास्ति—वह विनिर्माता जिसके विषय में यह पाया जाता है कि उसने इस अधिसूचना के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है तब सारे उत्पाद शुल्क माल तथा वह विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम 2001 के नियम 25 के तहत दंड का भागी होगा।

8. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2001 से प्रवृत्त होगी।

[फ़. सं. 354/66/2001-टीआरयू]

टी. आर. रुस्तागी, संयुक्त सचिव

फार्म एससी I

परिशिष्ट I

इम्ब्राइडरी के लिए विशेष प्रक्रिया का उपयोग हेतु अनुमति के लिए आवेदन
कारखाना/कारखानों का नाम.....पता.....

मैं/हम..... इम्ब्राइडरी के विनिर्माता,
.....ताल्लुक/तहसील..... जिला..... के रहने वाले तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
पंजीकरण संख्या..... तारीख..... रखने वाले..... कलेंडर माह/अवधि
जिसकी शुरुआत..... 20..... तथा अंत
..... 20..... से हो के दौरान ऐसे इम्ब्राइडरी के उत्पादन के लिए विशेष प्रक्रिया का
उपयोग अपने कारखान में करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम, 2001 के नियम 15 के तहत
अधिसूचना में अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन करते हैं।

2 मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमारे द्वारा स्थापित इम्ब्राइडरी मशीन का विवरण निम्नवत है

मशीन का दिया गया क्रम सं० (यह मख्या स्पष्ट रूप में दिखन पाल स्थान पर पट की जाय)	मशीन के ब्रांड नेम या अन्य पहचान चिन्ह का विवरण	मशीन की स्थापना का वर्ष	मशीन की मीटरी लंबाई	मशीन की प्रति मिनट चक्कर काटने	टिप्पणी
---	---	-------------------------	---------------------	--------------------------------	---------

				की क्षमता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

3. मैं/हम उक्त प्रक्रिया के सभी शर्तों एवं प्रावधानों का उक्त अवधि के दौरान पालन करने की घोषणा करते हैं।

स्थान

तारीख:

विनिर्माता या उसके एजेंट के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क.....

रेंज.....

सर्किल.....

स्थान

तारीख:

कलण्डर माह/अवधि जिसकी शुरूवात तथा अत से हो के दौरान अनुमति प्रदान की।

स्थान

तारीख:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता

परिशिष्ट II

मूल

द्वितीय

तृतीय

विशेष प्रक्रिया में बने इम्ब्राइडरी के विनिर्माता द्वारा रखा गया उत्पादन रजिस्टर सहित एकाउंट करेट

कारखाने का नाम पता

प्रथम शीफ्ट घंटे से घंटे तक

महाना 20

द्वितीय शीफ्ट घंटे से घंटे तक

पर्याकरण सं०

तृतीय शीफ्ट घंटे से घंटे तक

एकाउंट करेट सं०

क्रमांक	शीफ्ट	इम्ब्राइडरी का प्रकार का विवरण	बैस फैब्रिक का विवरण	शीफ्ट के दौरान प्रयुक्त मशीन का विवरण			मशीन की प्रति मीटरी लंबाई प्रति शीफ्ट, दर रुपये में	टूजरी में जमा किए गए रकम से सबद्ध कागजात की संख्या तथा तारीख	जमा की गई रकम रुपये में	देय कुल रकम रुपये में शेष	शेष
				स०	आवेदक द्वारा दिया गया क्रम सं०	कुल मीटरी लंबाई					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2001

No. 33/2001-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 491(E).— In exercise of the powers conferred by rule 15 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001, the Central Government hereby specifies embroidery in the piece, in strips or in motifs on cotton fabrics, man made fabrics, silk fabrics or woollen fabrics, in respect of which an assessee shall have the option to pay the duty of excise on the basis of meter length of the machine per shift and fixes a rate of duty of Rs. 45 per meter length of the machine per shift, for embroidery machines utilised for manufacture of the said goods:

Provided that no credit of duty paid on inputs used in the manufacture of the embroidery and capital goods used within the factory of manufacture of such embroidery shall be taken under the CENVAT Credit Rules, 2001:

Provided further that the procedure mentioned hereinafter is followed.

Explanation.- In this notification-

- (a) "meter length", in relation to a machine, means the distance between the points provided for the first needle and the last needle of only one roller of such machine;
- (b) "shift" means a period not exceeding eight hours working in a day, exclusive of rest interval, provided the work of the same kind is carried out by the same set of workers.

2. Application to avail of special procedure.- (1) A manufacturer of embroidery in the piece, in strips or in motifs (hereinafter referred to as "the embroidery") shall make an application in the form specified in Appendix I to this notification as Appendix-I to the Superintendent of Central Excise in this behalf.

(2) The application shall be made so as to cover a period of not less than six consecutive calendar months, but may be granted for a shorter period, for reasons to be recorded in writing by the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner, as the case may be.

(3) If, at any time during such period, the manufacturer does not desire to avail himself of the special provisions contained in this notification, he shall give a notice in writing to the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner in charge of the factory of his intention at least one week in advance. Once the manufacturer has ceased to avail himself of such special provisions, from any date, he shall be precluded from availing himself of such provisions for a period of six months from that date.

(4) If the manufacturer desires to avail himself of the special procedures contained herein on the expiry of the period for which his application was granted, he shall, not later than a week before such expiry, make an application to the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise under sub paragraph (1); and on his failure to do so, he shall, except as provided herein, be precluded from availing himself of such procedures for a period of six months from the date of such expiry.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), an application made by a manufacturer before the commencement of this notification under sub-rule(1) of rule 96ZH of the Central Excise Rules, 1944, shall be deemed to be an application made under sub-paragraph (1) and the same shall be deemed to have been granted under sub-paragraph (1) and where such application has not been granted, the Assistant

Commissioner or the Deputy Commissioner shall dispose of the same as if it is an application under sub-paragraph (1).

3. Discharge of liability for duty on payment of certain sum.- (1) If a manufacturer whose application has been granted under paragraph 2 pays before the commencement of any shift a sum calculated according to such rate, in the manner and subject to the conditions herein laid down, such payment shall be in full discharge of his liability for the duty leviable on his production of the embroidery during the said shift:

Provided that if there is revision in the rate of duty, the sum payable shall be recalculated on the basis of the revised rates from the date of revision and liability for duty leviable on the production of the embroidery from that date shall not be discharged unless the differential duty is paid, and in case the amount of duty so recalculated is less than the sum paid, the balance shall be refunded to the manufacturer:

(2) The sum payable under sub-paragraph (1) shall be calculated by application of the appropriate rate to the meter length of each of the machines intended to be employed by the manufacturer during the shift.

(3) Such sum shall be paid by such manufacturer by debit in the account-current maintained under these provisions before commencement of the shift.

(4) If the payment is not made in the manner and within the time-limit herein laid down, the manufacturer shall, unless otherwise directed by the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Central Excise, and in exceptional circumstances, be liable to pay duty on his entire production of the embroidery during the shift or shifts, in respect of which the payment was to be made, at the rate specified in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986):

Provided that where the period of delay is upto five days, the provisions of this sub-paragraph shall have effect as if for the expression "Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner of Central Excise", the expression "Superintendent of Central Excise" has been substituted.

4. Manufacturer's declaration and accounts.- (1) The manufacturer shall keep account-current with the Commissioner, of the sums payable under paragraph 3, and such account-current shall be maintained in triplicate by using indelible pencil and double sided carbon and the assessee shall periodically make credit in such account-current by cash payment into the treasury so as to keep sufficient balance in such account-current to cover the sums payable under paragraph 3.

(2) Such manufacturer shall also-

(a) maintain a Daily Stock Account in the form specified in Appendix II to this notification;

(b) intimate the Superintendent of Central Excise in writing of any change in the number, meter length and speed of the machines installed by him; and

(c) append to the monthly return in proper form prescribed under rule 12 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001, two carbon copies of the Daily Stock Account duly signed.

5. Exemption from certain provisions etc.- (1) During the period in respect of which a manufacturer has been permitted to avail himself of the procedure of this notification, he shall be exempt from the operation of the provisions of rule 8 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001.

(2) Except in accordance with such terms, conditions and limitations as the Central Government may by notification specify in this behalf, no rebate of excise duty shall be paid under rule 18 of the said Central Excise Rules, in respect of any embroidery exported out of India out of the stock produced by such manufacturer during such period.

6. Power to condone failure to apply for special procedure.- Notwithstanding anything contained in this notification, the Additional Commissioner of Central Excise or the Joint Commissioner of

Central Excise may, at his discretion and subject to such conditions as he may deem fit, apply the provisions contained in this notification to a manufacturer who has failed to avail himself of the special procedure, or to comply with any condition, laid down in this notification.

7. Confiscation and penalty.- If any manufacturer contravenes any provision of this notification in respect of any excisable goods, then all such goods shall be liable to confiscation, and the manufacturer shall be liable to penalty under rule 25 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001.

8. This notification shall come into effect on and from the first day of July, 2001.

[F. No. 354/66/2001-TRU]

T. R. RUSTAGI, Jt. Secy.

Appendix-I

Form A S P I

Application for permission to avail of the special procedure relating to embroidery

Name of the factory/factories.....Address.....

I/We.....manufacturer(s) of embroidery processed at..... taluk/tehsil..... district.....And holders of Central Excise Registration No.....dated.....hereby apply to avail myself/ourselves during the.....calendar month/the period beginning with 20... and ending with20..... of the special procedure contained in respect of the manufacture of the embroidery specified under the notification issued under rule 15 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001.

2. I/We declare that the particulars of each embroidery machine installed by me/us

Serial number allotted to the machine (such number should be painted prominently on the machine),	Brand name and other identifying particulars of the machine	Year of instillation of the machine	Length of the machine in meters	Maximum revolutions per minute which the machine is capable of working at	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

3. I/We hereby agree to abide by the terms and conditions of the said procedure throughout the said period.

Place:

Date:

Signature of manufacturers or his/their authorized agent(s).
Countersigned

.....of Central Excise
Range.....
Circle.....

Place:

Date:

Permission granted for calendar month/the period beginning with.....and ending with.....

Assistant Commissioner
Deputy Commissioner of Central Excise

Place:

Date:

20/11/51/2001-4

Appendix-II
Original
Duplicate
Triplicate

Production register-cum-account current to be maintained by the the manufacturer of embroidery working under special procedure

Name and Address of the Manufacturer _____

First Shift : From _____ hours to _____ hours

Second Shift : From _____ hours to _____ hours

Third Shift : From _____ hours to _____ hours

Month _____, 20____

Registration No. _____

Account Current No. _____

Date	Shift	Description of variety of the embroidery	Description of the base fabrics	Particulars of machines intended to be employed during the shift			Rate per metre length of the machine per shift (Rs.)	Number and date of the credit document under which the amount deposited in the Treasury	Amount deposited (Rs.)	Total sum payable and debitted (Rs.)	Balance (Rs.)	Quantity of the embroidery manufactured during the Shift (Square metres)	Remarks	Signature of the manufacturer or his authorised agent
				Number	Serial Numbers allotted as per the application	Total metre length								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2001

सं. 34/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा. का. वि. 492(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम, 2001 की नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद शुल्क माल यथा, कोल्ड रोलिंग मशीन पर कोल्ड रोलिंग प्रक्रिया से गुजरे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) के प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाले स्टेनलेस स्टील पट्टी/पट्टा तथा अध्याय 76 के अंतर्गत आने वाले एल्यूमीनियम सर्किल के संबंध में विनिर्देशों को, इन मालों के कोल्ड रोलिंग के लिए लगाए गए कोल्ड रोलिंग मशीन के आधार पर उत्पाद शुल्क अदा करने का विकल्प देती है तथा प्रति कोल्ड रोलिंग मशीन, प्रति माह, निम्नलिखित दर से उत्पाद शुल्क निर्धारित करती है:-

- | | | |
|------|---|------------------------|
| (i) | स्टेनलेस स्टील पट्टी/पट्टी | पन्द्रह हजार रुपये |
| (ii) | कोल्ड रोलिंग मशीन पर बने शीट से उत्पादित एल्यूमीनियम सर्किल | |
| | (क) यदि रोलर की लम्बाई 30 इंच या उससे कम है | सात हजार पांच सौ रुपये |
| | (ख) यदि रोलर की लम्बाई 30 इंच से ज्यादा है | दस हजार रुपये |

परन्तु कच्चे माल, पूर्ण, अर्धव्य या मशीन या अंतिम उत्पाद जिनका उपयोग स्टेनलेस स्टील पट्टी/पट्टा तथा एल्यूमीनियम सर्किल के कोल्ड रोलिंग में किया जाये, पर अदा की गई शुल्क का कोई प्रत्यक्ष, सेनवेट प्रत्यक्ष नियम, 2001 के तहत नहीं लिया जायेगा।
परन्तु और की नीचे दिये गये प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

2. विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए आवेदन-- (1) जहां कोई विनिर्माता, सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता, जो लागू हो, को इस निमित्त अधिसूचना के परिशिष्ट I में दिये प्रारूप में आवेदन करता है जहां ऐसा आवेदन सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता, जो लागू हो, आवेदन, आवेदित अवधि के लिए, मंजूर कर सकता है।

(2) एम्मा आवेदन इस प्रकार किया जाएगा जिससे उसके अंतर्गत कम से कम लगातार बारह कलेंडर मास की अवधि आ जाए, किंतु सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता लिखित कारणों के साथ, उससे कम अवधि की अनुज्ञा दे सकता है।

(3) यदि ऐसी अवधि के दौरान किसी समय विनिर्माता इस अधिसूचना में दी प्रक्रिया का लाभ उठाने में असफल रहता है तो, जब तक सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता द्वारा अन्यथा आवेश नहीं दिया जाता है, ऐसी अवधि की तारीख से छ मास की अवधि के लिए ऐसे उपबंधों का लाभ उठाने से निवारित कर दिया जाएगा।

(4) यदि विनिर्माता उस अवधि के अवसान पर, जिसके लिए उसका आवेदन मंजूर किया गया था, इस अनुभाग में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है तो वह ऐसे अवसान के पूर्व सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता को उप पैराग्राफ (1) के अधीन आवेदन करेगा और ऐसा करने में उसके असफल रहने पर, जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया जाता है, उसे ऐसे अवसान की तारीख से छः मास की अवधि के लिए ऐसे उपबंधों का लाभ उठाने से निवारित कर दिया जाएगा।

(5) ऊपर लिखे किसी बातों के बावजूद, इस अधिसूचना के प्रारंभ से पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 96यक के उपनियम (1) के अंतर्गत दिए गए आवेदन को उप पैराग्राफ (1) के तहत किया गया आवेदन माना जायेगा तथा उप पैराग्राफ (1) के तहत मंजूर किया गया माना जायेगा एवं जहां ऐसा आवेदन मंजूर न किया गया हो, समाहर्ता उसे उप पैराग्राफ (1) के तहत किये गए आवेदन के रूप में निवारित करेगा।

3, एक निश्चित धनराशि के संदाय पर शुल्क के दायित्व से उन्मुक्ति-- (1) यदि कोई विनिर्माता, जिसका आवेदन पैराग्राफ 2 के अधीन मंजूर कर लिया गया है, ऐसे शुल्क की दर के अनुसार संगणित धनराशि का संदाय इसमें इसके पश्चात् अधिकथित रीति में और शर्तों तथा परिसीमाओं के अधीन रहते हुए करता है तो ऐसी संदाय उस कालावधि के दौरान, जिसके लिए उक्त धनराशि का संदाय किया गया है, उसके द्वारा ऐसी अतप्त पुनः वेल्डित स्टेनलेस स्टील पट्टियों/पट्टों के उत्पादन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के लिए उसके दायित्व का पूर्ण उन्मोचन होगा:

परंतु यदि शुल्क की दर में कोई फेरफार हो जाता है तो संदेय धनराशि की परिवर्तन की तारीख से पुनरीक्षित दर के आधार पर पुनः संगणना की जाएगी और उस तारीख में स्टेनलेस स्टील पट्टियों/पट्टों के उत्पादन पर उद्ग्रहणीय शुल्क के लिए दायित्व का उन्मोचन तब तक नहीं होगा जब तक कि शुल्क के अंतर का संदाय नहीं कर दिया जाता है। किंतु यदि इस प्रकार पुनः संगणित शुल्क की रकम संदेय धनराशि से कम है तो अतिशेष का विनिर्माता को प्रातिदाय कद दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां कोई विनिर्माता इस अनुभाग में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों का लाभ उठाने के लिए पैराग्राफ 2 के अधीन पहली बार आवेदन करता है तो उस मास के लिए शुल्क का दायित्व/जिसमें आवेदन मंजूर किया जाता है, उस मास में कुल दिनों की संख्या और ऐसी मंजूरी की तारीख से उस मास में शेष दिनों की संख्या के आधार पर अनुपाततः संगणित किया जाएगा।

(2) उप पैराग्राफ (1) के अधीन संदेय धनराशि की संगणना उस कलेंडर मास से, जिसमें पैराग्राफ 2 के अधीन आवेदन किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती तीन कलेंडर मास के दौरान किसी समय एक या अधिक परिसरों में ऐसे, विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से सस्थापित अतप्त वेल्डन मशीनों की अधिकतम संख्या को ऐसी दर लागू करके की जाएगी।

(3) ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसी धनराशि ऐसे आवेदन के साथ निविदत्त की जाएगी।

4 विनिर्माता की घाषणा और लेख-- (1) ऐसे विनिर्माता, यथास्थिति, किसी मास या उसके भाग से, जिसकी बाबत उसे इस अनुभाग के उपबंधों का लाभ उठाने की अनुज्ञा दी गई है, ठीक पूर्ववर्ती कलेंडर मास के दौरान किसी समय समुचित अधिकारी का समुचित प्ररूप में स्टेनलेस स्टील पट्टियों/पट्टों को चालू मास के दौरान अपनी परिसर में हटाने की इजाजत के लिए आवेदन करेगा जिसमें उसके द्वारा या उसकी ओर से उक्त कलेंडर मास के ठीक पूर्ववर्ती तीन कलेंडर मासों के दौरान किसी समय एक या अधिक परिसरों में सस्थापित अतप्त वेल्डन मशीनों की अधिकतम संख्या धाषित की जाएगी।

(2) यदि उप पैराग्राफ (1) में अधिकथित समय सीमा के भीतर ऐसा आवेदन समुचित अधिकारी को नहीं किया जाता है तो विनिर्माता, जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, उस मास या उसके भाग के दौरान, जिसकी बाबत आवेदन किया जाना था, केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई किसी सुसंगत अधिसूचना या अधिसूचनाओं के साथ पठित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित दर पर स्टेनलेस स्टील पट्टियों/पट्टों के अपने समस्त उत्पादन पर शुल्क का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(3) ऐसा विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को अपने द्वारा या अपनी ओर से संस्थापित अतप्त वेल्डिंग मशीनों की संख्या में प्रस्तावित परिवर्तन की लिखित सूचना भी देगा और ऐसा परिवर्तन करने से पूर्व ऐसे अधिकारी का लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा।

5 कुछ उपबंधों से छूट, आदि—(1) उस अवधि के दौरान, जिसकी बाबत किसी विनिर्माता को इस अनुभाग के उपबंधों का लाभ उठाने की अनुज्ञा दी गई है, उसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम, 2001 के नियम 8 के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट होगी।

(2) ऐसे विशेष निबंधनों, शर्तों और परिसीमाओं के अनुसार के सिवाए, जिन्हें केन्द्रीय सरकार इसके पश्चात अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसी अवधि के दौरान उत्पादित स्टाक में से भारत के बाहर निर्यात की गई किसी स्टेनलेस स्टील पट्टी/पट्टों की बाबत नियम 18 के अधीन उत्पादशुल्क के रिवाज का संदाय नहीं किया जाएगा।

6 नए कारखानों और उत्पादन पुनः प्रारंभ करने वाले बंद कारखानों की बाबत उपबंध—(1) ऐसे विनिर्माता की दशा में जा पहली बार उत्पादन प्रारंभ करता है या जो कम से कम तीन मास की निरंतर अवधि के लिए उत्पादन बंद करने के पश्चात उत्पादन पुनः प्रारंभ करता है और जिसे सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता ने पैराग्राफ 2 के अधीन इस अनुभाग में अंतर्विष्ट विशेष उपबंधों का लाभ उठाने की अनुज्ञा दी है, उसके द्वारा, यथास्थिति, पहले मास या उसके भाग के लिए संदेय रकम, उन अतप्त वेल्डिंग मशीनों की जो उसके द्वारा या उसकी ओर से ऐसी अवधि के दौरान संस्थापित की गई हैं या संस्थापित की जाने वाली हैं, अधिकतम संख्या की उसकी घोषणा के आधार पर, अन्तिम रूप से गणित की जाएगी।

(2) उस अवधि के अवसान पर संदेय रकम की वास्तव में संस्थापित अतप्त वेल्डिंग मशीनों की अधिकतम संख्या के आधार पर पुनः संगणना की जाएगी और यदि प्रारंभिक संदाय इस प्रकार अवधारित कुल दायित्व से कम है तो विनिर्माता से वसूल की जाएगी किंतु यदि कुल दायित्व प्रारंभिक निक्षेप से कम है तो अतिशेष का विनिर्माता का प्रतिदाय दिया जाएगा।

7 विशेष प्रक्रिया के लिए आवेदन करने में असफलता को माफ करने की शक्ति—इस अनुभाग में किसी बात के हातों हुए भी, कलक्टर अपने विवेक से और लिखित रूप में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और ऐसी शर्तों पर जो वह अधिकथित करे, इस अनुभाग में अंतर्विष्ट उपबंधों को ऐसे विनिर्माता पर लागू कर सकता है जो विनिर्दिष्ट समय परिसीमा के भीतर इस अनुभाग में अधिकथित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने में या किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहा है।

8 काम बंद करने वाले या प्रसामान्य प्रक्रिया को पुनः अपनाने वाले कारखानों की बाबत उपबंध—पैराग्राफ 2 से पैराग्राफ 7 तक में अंतर्विष्ट किसी बात के हातों हुए भी, यदि कोई विनिर्माता, जिसने इस अनुभाग में अंतर्विष्ट विशेष उपबंध का लाभ उठाया है, कार्य बंद कर देता है या प्रसामान्य प्रक्रिया को पुनः अपना लेता है तो उसके द्वारा के लिए, जिनके दौरान उसने विशेष उपबंधों का लाभ उठाया है, संदेय शुल्क की संगणना अंतिम मास के दौरान संस्थापित अतप्त वेल्डिंग मशीनों की अधिकतम संख्या के आधार पर पैराग्राफ 6 में विहित रीति से की जाएगी और एम मास के लिए पैराग्राफ 3 के अनुसार पहले ही संदेय रकम का इस प्रकार संगणित शुल्क के भंडे समायोजन

किया जायेगा और ऐसे समायोजन पर यदि कोई अधिक सदाय है तो उसका विनिर्माता को प्रतिदाय किया जाएगा और शुल्क में कोई कमी विनिर्माता से वसूल की जाएगी ।

स्पष्टीकरण--उस विनिर्माता के विषय में, जो अपने कारखानों में केवल एक या दो पारियों के लिए काम बंद करता है, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने इस नियम के अर्थ में काम बंद कर दिया है । ”

9 गलत घोषणा के लिए शास्ति--वह विनिर्माता जिसके विषय में यह पाया जाता है कि उसने इस अधिसूचना के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है तब सारे उत्पाद शुल्क माल तथा वह विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) नियम 2001 के नियम 26 के तहत दंड का भागी होगा ।

10. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2001 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/66/2001-टीआरयू]

टी. आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव

फार्म एसपी II

परिशिष्ट I

स्टेनलेस पट्टी या पट्टा या एल्यूमीनियम सर्किल के लिए विशेष प्रक्रिया का उपयोग हेतु अनुमति के लिए आवेदन कारखाना/कारखाने का नाम पता.....

मैं/हम स्टेनलेस पट्टी या पट्टा या एल्यूमीनियम सर्किल के विनिर्माता,
.....ताल्लुक/तहसील. जिला के रहने वाले तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
पंजीकरण संख्या तारीख रखने वाले कलेण्डर माह/अवधि
जिसकी शुरुवात 20 तथा अंत
..... 20 से हा के दौरान ऐसे स्टेनलेस पट्टी या पट्टा या एल्यूमीनियम सर्किल
क उत्पादन के लिए विशेष प्रक्रिया का उपयोग अपने कारखाने में करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए
आवेदन करत हं ।

2. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि कलेण्डर वर्ष के दौरान हमने 5 मजदूर से ज्यादा रोजगार
नहीं दिया है तथा कलेण्डर माह के दौरान मजदूर को रोजगार देना
चाहत हं ।

3. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि कलेण्डर वर्ष के दौरान हमने 5 हैड प्रेस से ज्यादा नहीं
उपयोग किया है तथा कलेण्डर माह के दौरान हैड प्रेस का उपयोग
करना चाहत हं ।

4. मैं/हम उक्त प्रक्रिया के सभी शर्तों एवं प्रावधानों का उक्त अवधि के दौरान पालन करने की घोषणा करते
हैं ।

स्थान

तारीख:

विनिर्माता या उसके एजेंट के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क...

रेज.

सर्किल.....

स्थान:

तारीख:

कलण्डर माह/अवधि जिसकी शुरुवात तथा अंत से हो के दोरान अनुमति प्रदान की ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक समाहर्ता या उप समाहर्ता

स्थान
तारीख

नोट: जो लागू न हो काट दे ।

परिशिष्ट II

मूल
द्वितीय
तृतीय
चतुर्थ

विशेष प्रक्रिया में बने स्टेनलेस स्टील पट्टा/पट्टी के निकासी के लिए आवेदन
कारखाने का नाम पता

मैं/हम स्टेनलेस पट्टी या पट्टा या एल्यूमीनियम सर्किल के विनिर्माता,
ताल्लुक/तहसील जिला के रहने वाले तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
पंजीकरण संख्या तारीख रखने वाले कलण्डर माह/अवधि
जिसकी शुरुवात 20 तथा अंत
..... 20 से हो के दोरान ऐसे स्टेनलेस पट्टी या पट्टा या एल्यूमीनियम सर्किल
का उत्पादन के लिए विशेष प्रक्रिया का उपयोग अपने कारखाने में करने के लिए अनुमति दिये जाने के उपरान्त अपने
उप कारखाने से जिसमें हम नीचे दिए गए रूप में कोल्ड रोलिंग मशीन लगाने तथा उत्पाद शुल्क की कुल रकम अदा
करने के उपरान्त उक्त माल की निकासी के लिए आवेदन करते हैं ।

स्थापित की गई कोल्ड रोलिंग मशीन, जिनका अपयोग हो, की संख्या	भारत सरकार के अधिसूचना सं० /2001- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख में दिया गया दर	देय रकम	कुल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)

- मैं/हम रुपये (रुपये मात्र) अदा करते हैं । शेष रकम हमारे द्वारा मासिक किस्त के रूप में अदा की जायगी ।
- मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि यहाँ दिए गए सभी तथ्य हमारी जानकारी के मुताबिक पूर्ण तथा सत्य हैं ।
- मैं/हम उक्त परिसर से उक्त अवधि से आरंभ तथा से समाप्त के दौरान, उक्त परिसर में विनिर्मित स्टेनलेस स्टील पट्टी/पट्टा की निकासी के लिए आवेदन करते हैं ।
- मैं/हम यह समझते हैं कि वर्ष के दोरान दी गई अनुमति पैराग्राफ 2 में दी शेष राशि की अदायगी पर आधारित है ।

स्थान
तारीख

विनिर्माता या उसके एजेंट के हस्ताक्षर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक

..... रेंज
..... डिवाजन

प्रति हस्ताक्षरित

स्थान:

तारीख:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक

रेंज.....

सर्किल.....

अदा किए गए शुल्क का विवरण

(फ) नगद अदायगी

ट्रेजरी

भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक

(विनिर्माता या उसके एजेंट द्वारा भरा जाये)

नगद अदा करने वाले व्यक्ति का नाम	अदायगी का विवरण	कुल रकम शब्दों तथा अंकों में
(1)	(2)	(3)

अकाउंट शीर्ष

038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-स्टेमलेस स्टील पट्टी पट्टा

(ख) कपाउण्ड लेवी स्कीम के तहत

तारीख:

अदा करने वाले के हस्ताक्षर

बैंक या ट्रेजरी द्वारा भरा जाये

प्रमाण पत्र

जमा संख्या तारीख रुपये शब्दों में की अदायगी प्राप्त किया ।

खजांची या एकाउंटेंट या एजेंट या मैनेजर के हस्ताक्षर

(ग) एकाउंट करंट के माध्यम से अदायगी

लेजर के एकाउंट का शीर्षक	एंट्री की संख्या तथा तारीख	रकम शब्दों और अंकों में
(1)	(2)	(3)

स्थान:

तारीख:

विनिर्माता या उसके एजेंट के हस्ताक्षर

(ङ) टी0आर0 8 या विशेष रक्कम मनीआर्डर के माध्यम से अदायगी

अदायगी की तारीख	टी0आर0 8 संख्या/विशेष मनीआर्डर कूपन संख्या	रकम शब्दों और अंकों में
(1)	(2)	(3)

स्थान:

तारीख:

अदायगी की शर्तों के साथ निकासी की अनुमति दी गई

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक

नियम लागू न हो काट दे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2001

No. 34/2001-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 492(E).— In exercise of the powers conferred by Rule 15 of the Central Excise (No.2) Rules, 2001, The Central Government hereby specifies the excisable goods viz. stainless steel pattis/pattas, falling under Chapter 72, or aluminium circles falling under Chapter 76 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985(5 of 1986) subjected to the process of cold rolling with the aid of cold rolling machine in respect of which an assessee shall have an option to pay the duty of excise on the basis of cold rolling machine installed for cold rolling of these goods and fixes the following rate of duty per cold rolling machine, per month:-

- | | | |
|------|--|------------------------------------|
| (i) | stainless steel pattis or pattas | Fifteen thousand rupees |
| (ii) | aluminium circles produced from sheets manufactured on cold rolling machines | |
| | (a) where the length of the roller is 30" or less | Seven thousand five Hundred rupees |
| | (b) where the length of the roller is more than 30" | Ten thousand rupees: |

Provided that no credit of duty paid on any raw materials, component part or machinery or finished products used for cold rolling of stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles under CENVAT Credit Rules, 2001 shall be taken:

Provided further that the procedure mentioned hereinafter is followed.

2. Application to avail special procedure.— (1) The manufacturer shall make an application in the form specified in Appendix-I to this notification to the Superintendent of Central Excise, as the case may be, for this purpose and the Superintendent, may grant permission for the period in respect of which the application has been made.

(2) The application shall be made so as to cover a period of not less than twelve consecutive calendar months, but permission may be granted for a shorter period for reasons to be recorded in writing, by the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise.

(3) If at any time during such period the manufacturer fails to avail himself of the procedure contained in this notification, he shall, unless otherwise ordered by the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner, be precluded from availing himself of such procedure for a period of six months from the date of such failure.

(4) If the manufacturer desires to avail himself of the procedure contained in this notification on the expiry of the period for which his application was granted, he shall, before such expiry, make an

application to the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise as under sub- paragraph (1) and on his failure to do so, he shall, except as provided herein, be precluded from availing himself of such procedure for a period of six months from the date of such expiry.

(5) Notwithstanding anything contained in sub- paragraph (1), an application made by a manufacturer, before the commencement of this notification, under sub-rule (1) of rule 96ZA of the Central Excise Rules, 1944, shall be deemed to be an application made under sub- paragraph (1) and the same shall be deemed to have been granted under sub- paragraph (1) and where such application has not been granted, the Assistant Commissioner or the Deputy Commissioner shall dispose of the same as if it is an application under sub- paragraph (1).

3. Discharge of duty liability on payment of certain sum.- (1) A manufacturer whose application has been granted under paragraph 2 shall pay a sum calculated at the rate specified in this notification, subject to the conditions herein laid down, and such payment shall be in full discharge of his liability for duty leviable on his production of such cold re-rolled stainless pattas/pattis, or aluminium circles during the period for which the said sum has been paid:

Provided that if there is revision in the rate of duty, the sum payable shall be recalculated on the basis of the revised rate, from the date of revision and liability for duty leviable on the production of stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles from that date shall not be discharged unless the differential duty is paid and in case the amount of duty so recalculated is less than the sum paid, the balance shall be refunded to the manufacturer:

Provided further that when a manufacturer makes an application for the first time under paragraph 2 for availing of the procedure contained in this notification, the duty liability for the month in which the application is granted shall be calculated pro-rata on the basis of the total number of days in that month and the number of days remaining in the month from the date of such grant.

(2) The sum payable under sub-paragraph (1) shall be calculated by application of the appropriate rate to the maximum number of cold rolling machines installed by or on behalf of such manufacturer in one or more premises at any time during three calendar months immediately preceding the calendar month in which the application under paragraph 2 is made.

(3) The sum shall be tendered by the manufacturer along with the application.

4. Manufacturer's declaration and accounts.- (1) The manufacturer who has been granted permission under paragraph (2) above shall make an application in the form specified in Appendix II to this notification to the Superintendent in charge of the factory for permission to remove the stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles from his premises during the ensuing month, declaring the maximum number of cold rolling machines installed by him or on his behalf, in one or more premises at any time during three calendar months immediately preceding the said calendar month in which such application is made.

(2) If such application is not made to the Superintendent of Central Excise within the time limit laid down in sub-paragraph (1), the manufacturer shall, unless, otherwise directed by the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise, and in exceptional circumstances, be liable to pay duty on his entire production of stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles during the month or part thereof in respect of which the application was to be made, at the rate prescribed in the First Schedules to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) read with any relevant notification or notifications issued under sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

(3) The manufacturer shall also intimate the Superintendent of Central Excise in writing of any proposed change in the number of cold rolling machines installed by him or on his behalf, and obtain the written approval of such officer before making any such change.

5. Exemption from certain provisions etc.- (1) During the period in respect of which any manufacturer has been permitted to avail himself of the procedure of this notification, he shall be exempt from the operation of rule 8 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001.

(2) Except in accordance with such terms and conditions as the Central Government may by notification specify in this behalf, no rebate of excise duty shall be paid under rule 18 of the said Central Excise Rules, in respect of any stainless steel pattis/pattas, or aluminium circles exported out of India, out of the stock produced by such manufacturer during such period.

6. Provisions regarding new factories and closed factories resuming production.- (1) In the case of a manufacturer who commences production for the first time or who recommences production after having ceased production for a continuous period of not less than three months, and who has been permitted by the Assistant Commissioner of Central Excise or the Deputy Commissioner of Central Excise under paragraph 2 to avail of the procedure, the amount payable by him for the first month or part thereof, as the case may be, shall be provisionally calculated on the basis of his declaration of the maximum number of cold rolling machines that are or are likely to be installed by him or on his behalf during such period.

(2) At the expiry of the period, the amount payable shall be recalculated on the basis of the maximum number of cold rolling machines actually installed and if the initial payment falls short of the total liability so determined, the deficiency shall be recovered from the manufacturer and where the total liability is less than the initial deposit, the balance shall be refunded to the manufacturer.

7. Power to condone failure to apply for special procedure. - Notwithstanding anything contained in this notification, the Additional Commissioner of Central Excise or the Joint Commissioner of Central Excise may, at his discretion, for reasons to be recorded in writing, and subject to such conditions as he may deem fit, apply the provisions contained in this notification to a manufacturer who has failed to avail himself of the special procedure, or to comply with any condition laid down in this notification.

8. Provision regarding factories ceasing to work or reverting to the normal procedure.- Notwithstanding anything contained in this notification, where a manufacturer who had availed himself of the procedure contained in this notification ceases to work or reverts to the normal procedure, the duty payable by him in the month during which he has availed himself of the procedure shall be calculated on the basis of the maximum number of cold rolling machines installed during the last month in the manner prescribed in paragraph 6 and the amount already paid for the month in accordance with paragraph 3 shall be adjusted towards the duty so calculated and on such adjustment if there is any excess payment it shall be refunded to the manufacturer and any deficiency in duty shall be recovered from the manufacturer.

Explanation. - A manufacturer, who ceases to work his factory for one or two shifts only, shall not be deemed to have ceased to work within the meaning of this notification.

9. Confiscation and penalty.- If any manufacturer contravenes any provision of this notification in respect of any excisable goods, then all such goods shall be liable to confiscation, and the manufacturer shall be liable to penalty under rule 25 of the Central Excise (No. 2) Rules, 2001.

10. This notification shall come in to effect on and from the first day of July, 2001.

[F.No. 354/66/2001-TRU]

T. R. RUSTAGI, Jt. Secy

Appendix-I

Form A S P II

Application for permission to avail of the special procedure relating to stainless steel patties or pattas or aluminium circles.

Name of the factory/factories.....Address.....

I/We.....manufacturers of stainless steel patties or pattas/aluminium circles processed without the aid of power or steam, residing at.....taluk/tehsil.....district....and holders of Central Excise Registration No.....dated.....hereby apply to avail myself/ourselves during the.....calendar month/the period beginning with.....20... and ending with20.... of the special procedure in respect of the production or transactions in such stainless steel patties or pattas or aluminium circles without the aid of power or steam at my/our above mentioned factory/factories.

2. I/We declare that I/We had not at any time during the calendar year ending.....employed more than five workers and that I/we intend to employworkers in the factory during the calendar month next following.

3. I/we declare that I/We had not at any time during the calendar year ending.....employed more than five hand presses and that I/we intend to employ in the factory during the calendar month next hand presses.

4. I/We hereby agree to abide by the terms and conditions of the said procedure throughout the said period.

Place:

Date:

Signature of manufacturers or his/their authorized agent(s).

Countersigned

.....of Central Excise
Range.....
Circle.....

Place:

Date:

Permission granted for Calendar month/the period beginning with.....and ending with.....

Assistant Commissioner/Deputy
Commissioner of Central Excise

Place:

Date:

Note: Delete the entries not applicable.

Appendix-II

Original
Duplicate
Triplicate
Quadruplicate

Application for removal of stainless steel patties/pattas manufactured under the special procedure

Name of the Factory.....

Address.....

1. I/We.....manufacturer(s) of stainless steel
patties/pattas residing
at.....Taluka/Tehsil.....District.....
and holder(s) of Central Excise Registration No.dated.....having been permitted to
avail myself/ourselves of the special procedure contained in the notification issued under rule 15 of
Central Excise (No.2) Rules 2001, in respect of my/our production and transactions in such stainless
steel patties/pattas at the above-mentioned factory/factories hereby declare that I /we intend to instal
and employ the cold rolling machines for the production of stainless steel patties/pattas during the
year.....in the manner indicated below, and the total sum payable by me/us in terms of the
provisions laid down in the notification in respect of the said period are stated hereunder:-

No.of cold rolling Machines to be installed and employed	Rate prescribed in Government of India Notification No. /2001- Central Excise dated	Sum payable	Total
(1)	(2)	(3)	(4)

2. I/We tender herewith the sum of Rs.....(Rupees.....only). The balance will be paid
by me/us in monthly instalments.

3. I/We hereby declare that the particulars furnished herein are true and complete to the best of
my/our knowledge and belief.

4. I/We apply for leave to remove from the above mentioned premises during the period from
.....to.....any stainless steel patties/pattas manufactured in the said premises during that
period.

5. I/We understand that the permission accorded to me/us for the year.....is subject to my/our
paying the balance amount as indicated in paragraph 2 above.

Place.....

Date.....

Signature of manufacturer or his authorized agent.

To

The Superintendent of Central Excise

.....Range

.....Division

COUNTERSIGNED

Place.....

Date.....

Superintendent of Central Excise

.....Range

.....Circle.

Statement of duty paid:

(a) For payment in cash at.....

Treasury

State Bank of India

Reserve Bank of India

(To be filled in by the manufacturer or his authorised agent)

Name of person tendering payment	Particulars of payment	Amount(in words as well as in figures)
(1)	(2)	(3)

Head of Account

038-Union Excise Duties- Stainless steel patties/pattas

(b) Under the compounded levy scheme.

Date.....

Signature of the tenderer

(To be filled in by the Treasury or Bank)

CERTIFICATE

Deposit Number.....Date.....Received payment of rupees (in words).....

Signature of Treasurer or Accountant

Agent or Manager

(c) For payment through account-current:

Title of Account of Ledger	Number and date of entry	Amount (in words as well as in figures)
(1)	(2)	(3)

Place.....

Date.....

Signature of the manufacturer or his Authorized agent.

(d) For payment through T.R.5/Special Revenue Money Order

Date of Payment	T.R.5 No./Special Money Order Coupon No.	Amount(in words as well as in figures)
(1)	(2)	(3)

Place.....

Date.....

Clearance allowed subject to fulfillment of the condition of deposits

Superintendent of Central Excise

Note: Delete the entries not applicable.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2001

सं. 51/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा. का. नि. 493(अ).— कन्द्रीय सरकार, कन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करत हुए, कन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम (सं० 2) 2001 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जायगा) का सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का कन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सं० 2) (पहला सशोधन) नियम 2001
(2) य 1 जुलाई 2001 से प्रवृत्त होगी ।
2. उक्त नियम के नियम 15 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात्:-

“(1) कन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसा माल को अधिसूचित कर सकेगा जिसकी बाबत विनिर्माता के पास एस तथ्या के आधार पर जो एस माल के उत्पादन से सद्गत हो, ऐसी दर पर जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो जाय, और जो ऐसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं, जिसमें ब्याज और दंड संबंधित शर्तों और सीमाएं सम्मिलित हैं, उत्पाद शुल्क का रादाय करने का विकल्प होगा”

3. उक्त नियम के नियम 16 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात्:-

“(2) अगर माल की वापसी से पूर्व उन पर ऐसी प्रक्रिया की गई हो जो विनिर्माण नहीं हो, विनिर्माता उपनियम (1) के अंतर्गत ली गई गुजरा की रकम का संदाय करेगा और अन्य किसी मामले में, निकासी की तारीख पर लागू दर में शुल्क उस मूल्य पर दाय होगा जिसका निर्धारण उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) अथवा धारा 4 अथवा 4क, जसा कि मामला हो, के अंतर्गत होगा”

[फा. सं. 354/66/2001-टीआरयू]

टी. आर. रुस्तगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: भारत के राजपत्र, असाधारण सा.का.नि. 444(अ), दिनांक 21 जून, 2001 में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2001

No. 51/2001-CENTRAL EXCISE (N.T.)

G.S.R. 493(E).— In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944(1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further rules to amend the Central Excise(No: 2) Rules, 2001, (hereinafter referred to as the said rules) namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Excise(No:2) (First Amendment) Rules, 2001
(2) They shall come into force on the 1st day of July, 2001

2. In rule 15 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

“(1) The Central Government may, by notification, specify the goods in respect of which an assessee shall have the option to pay the duty of excise on the basis of such factors as may be relevant to production of such goods and at such rate as may be notified for this purpose, subject to such limitations and conditions, including those relating to interest or penalty, as may be specified in such notification.”

3. In rule 16 of the said rules, for sub-rule(2), the following shall be substituted, namely:-

“(2) If the process to which the goods are subjected before returning does not amount to manufacture, the manufacturer shall pay an amount equal to the CENVAT credit taken under sub-rule(1) and in any other case the manufacturer shall pay duty on goods returned under sub-rule(1) at the rate applicable on the date of removal and on the value determined under sub-section(2) of section 3 or section 4 or section 4A of the Act, as the case may be.”

[F. No. 354/66/2001-TRU]

T. R. RUSTAGI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R. 444(E) dated the 21st June, 2001.

